



हर हफ़्ते नीली गोली लेकर हम बने सुस्त से चुस्त.



हर हफ़्ते नियमित नीली गोली और पौष्टिक आहार लेने से हमारे खून में
आयरन की मात्रा बढ़ेगी जिससे हम बनेंगे तेज और चुस्त

सॉलिड बनो हिमाचल

बच्चों के खून में आयरन की मात्रा बढ़ाने के लिए
भारत सरकार की पहल



राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश

